

CLASS : 10th (Secondary)

Series : Sec. April/2021

Roll No. 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Code No. 5503

SET : B

गणित

MATHEMATICS

भाग - II

PART - II

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

(Objective Questions)

(Academic/Open)

[ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम ]

[ Hindi and English Medium ]

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

- कृपया जाँच कर लें कि भाग-II के इस प्रश्न-पत्र में सुदृष्ट पृष्ठ 8 तथा प्रश्न 40 हैं।

*Please make sure that the printed pages in this question paper of Part-II are 8 in number and it contains 40 questions.*

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

*Candidates must write their Roll Number on the question paper.*

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

*Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, no claim in this regard, will be entertained after examination.*

सामान्य निर्देश :

**General Instruction :**


(i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

**All questions are compulsory.**

(ii) सही उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए।

Write **correct** answer in your answer-book.

1. संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखण्डों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।  
Express 3825 as a product of its prime factors.
2. 64 तथा 96 का HCF क्या होगा ?  
What is HCF of 64 and 96 ?
3. एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं।  
Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeroes are -3 and 2 respectively.
4.  $K$  के किन मानों के लिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है ?  

$$4x + Ky + 8 = 0 \text{ तथा } 2x + 2y + 2 = 0$$
  
For what values of  $K$  does the pair of linear equations  $4x + Ky + 8 = 0$  and  $2x + 2y + 2 = 0$  has unique solution ?
5.  $K$  के किस मान के लिए द्विघात समीकरण  $Kx^2 - 4x + 2 = 0$  के मूल बराबर हैं ?  
For what values of  $K$ , quadratic equation  $Kx^2 - 4x + 2 = 0$  has equal roots ?
6. A. P. 10, 7, 4, ..... का 5वाँ पद ज्ञात कीजिए।  
Find 5<sup>th</sup> term of A. P. 10, 7, 4 .....
7. आकृति में  $DE \parallel BC$  है।  $EC$  की लंबाई ज्ञात कीजिए।  
In figure  $DE \parallel BC$ . Find length of  $EC$ .

8. यदि  $\sin A = \frac{3}{4}$ , तो  $\cos A$  का मान ज्ञात कीजिए।  
If  $\sin A = \frac{3}{4}$ , find value of  $\cos A$ .
9.  $\sin 45^\circ + \cos 45^\circ$  का मान ज्ञात कीजिए।  
Find the value of  $\sin 45^\circ + \cos 45^\circ$ .

10. 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखण्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण  $60^\circ$  है। 1  
Find the area of a Sector of a circle with radius 7 cm if angle of the Sector is  $60^\circ$ .
11. परिमेय संख्या  $\frac{17}{8}$  के दशमलव प्रसार सांत है या असांत आवर्ती। 1  
Whether the Rational number  $\frac{17}{8}$  will have a terminating decimal expansion or non terminating repeating decimal expansion.
12. द्विघात समीकरण  $3x^2 - 5x + 2 = 0$  का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। 1  
Find discriminant of quadratic equation  $3x^2 - 5x + 2 = 0$ .
13. समांतर श्रेढ़ी 7, 5, 3, 1 ..... का सार्व अन्तर ज्ञात कीजिए। 1  
Find common difference of A.P. 7, 5, 3, 1 .....
14. A.P. 2, 7, 12 ..... के पहले 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 1  
Find the sum of first 6 terms of A.P. 2, 7, 12 .....
15. सभी वृत्त ..... होते हैं। (समरूप/ सर्वांगसम)  
All circles are ..... . (Similar/ Congruent) 1
16. किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे ..... बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करती है।  
A tangent to a circle intersects it in ..... points. 1
17. बाह्य बिन्दु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लम्बाइयाँ ..... होती हैं।  
The lengths of tangents drawn from an external point to a circle are ..... . 1
18. बिन्दुओं  $(-5, 7)$  और  $(-1, 3)$  के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।  
Find distance between the points  $(-5, 7)$  and  $(-1, 3)$ . 1
19.  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta$  का मान = ..... होता है।  
The value of  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta$  = ..... . 1

20. यदि  $P(E) = 0.15$  है, तो 'E नहीं' की प्रायिकता क्या होगी ?

If  $P(E) = 0.15$ , what is the probability of event 'not E' ?

21. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या अपरिमेय है ?

- (A)  $\sqrt{4}$       (B)  $\sqrt{5}$       (C)  $\sqrt{9}$       (D)  $\sqrt{16}$

Which of these is an Irrational number ?

- (A)  $\sqrt{4}$       (B)  $\sqrt{5}$       (C)  $\sqrt{9}$       (D)  $\sqrt{16}$

22. द्विघात बहुपद  $2x^2 + 5x - 3$  के शून्यकों का योगफल है :

- (A)  $\frac{-3}{2}$       (B)  $\frac{-2}{5}$       (C)  $\frac{-5}{2}$       (D)  $\frac{-3}{5}$

Sum of zeroes of quadratic Polynomial  $2x^2 + 5x - 3$  is :

- (A)  $\frac{-3}{2}$       (B)  $\frac{-2}{5}$       (C)  $\frac{-5}{2}$       (D)  $\frac{-3}{5}$

23. द्विघात समीकरणों के युग्म  $x - 3y - 3 = 0$  तथा  $3x - 9y - 2 = 0$  का हल होगा :

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| (A) अद्वितीय एक हल  | (B) कोई हल नहीं       |
| (C) अपरिमित अनेक हल | (D) इनमें से कोई नहीं |

The pair of linear equations  $x - 3y - 3 = 0$  and  $3x - 9y - 2 = 0$  has solution :

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| (A) Unique Solution           | (B) No Solution   |
| (C) Infinitely Many Solutions | (D) None of these |

24. इनमें से कौन-सी द्विघात समीकरण है ?

- (A)  $(x + 2)(x + 1) = (x - 1)(x + 3)$   
 (B)  $x^2 + 3x + 1 = (x - 2)^2$   
 (C)  $(x + 1)^2 = 2(x - 3)$   
 (D)  $(x + 2)^3 = 2x(x^2 - 1)$

Which of these is a quadratic equation ?

- (A)  $(x + 2)(x + 1) = (x - 1)(x + 3)$   
 (B)  $x^2 + 3x + 1 = (x - 2)^2$   
 (C)  $(x + 1)^2 = 2(x - 3)$   
 (D)  $(x + 2)^3 = 2x(x^2 - 1)$

- 25.** द्विघात समीकरण  $x^2 - 3x - 10 = 0$  के मूल होंगे :

1

- (A) 5, 2      (B) 5, -2  
(C) -5, 2      (D) 5, 3

Roots of the quadratic equation  $x^2 - 3x - 10 = 0$  are :

- (A) 5, 2      (B) 5, -2  
(C) -5, 2      (D) 5, 3

- 26.** इनमें से कौन-सी A.P. सिरीज है ?

1

- (A) 2, 4, 8, 12 ..... (B) 0.2, 0.22, 0.222 .....  
(C) 3, 5, 7, 9 ..... (D) 1, 2, 4, 8 .....


Which one is A.P. series ?

- (A) 2, 4, 8, 12 ..... (B) 0.2, 0.22, 0.222 .....  
(C) 3, 5, 7, 9 ..... (D) 1, 2, 4, 8 .....

27.  $\triangle ABC$  और  $\triangle QRP$  समरूप त्रिभुज हैं। इनमें समरूपता की कौन-सी कसौटी प्रयोग होगी ?


1

- (A) S.A.S.
  - (B) A.A.A.
  - (C) S.S.S.
  - (D) इनमें से कोई नहीं



$\triangle ABC$  and  $\triangle QRP$  are similar. Which similarity criterion is used ?

- (A) S.A.S.
  - (B) A.A.A.
  - (C) S.S.S.
  - (D) None of these



28. एक बिन्दु  $Q$  से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लम्बाई 24 सेमी तथा  $Q$  के केन्द्र से दूरी 25 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या है :

1

- (A) 7 سے میں      (B) 12 سے میں      (C) 15 سے میں      (D) 24.5 سے میں

From a point  $Q$ , the length of the tangent to a circle is 24 cm and distance of  $Q$  from the centre is 25 cm. The radius of the circle is :

- (A) 7 cm      (B) 12 cm      (C) 15 cm      (D) 24.5 cm

29. यदि एक बिन्दु  $P$  से  $O$  केन्द्र वाले किसी वृत्त पर  $PA$  तथा  $PB$  स्पर्श रेखाएँ परस्पर  $80^\circ$  के कोण पर झड़की हो, तो  $|POA|$  बराबर है :

(A)  $80^\circ$       (B)  $70^\circ$   
 (C)  $60^\circ$       (D)  $50^\circ$

If tangents  $PA$  and  $PB$  from a point  $P$  to a circle with centre  $O$  are inclined to each other at angle of  $80^\circ$ , then  $\angle POA$  is equal to :

(A)  $80^\circ$       (B)  $70^\circ$   
(C)  $60^\circ$       (D)  $50^\circ$

- 30.** बिन्दुओं  $(-1, 7)$  तथा  $(4, -3)$  को मिलाने वाले रेखाखण्ड के मध्य बिन्दु के निर्देशांक हैं :

(A)  $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$

(C)  $\left(\frac{3}{2}, 2\right)$       (D)  $\left(\frac{-3}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Co-ordinates mid point of line joining two points  $(-1, 7)$  and  $(4, -3)$  is :

(A)  $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$

(C)  $\left(\frac{3}{2}, 2\right)$       (D)  $\left(\frac{-3}{2}, \frac{1}{2}\right)$

- 31.**  $y$ -अक्ष पर किसी बिन्दु के निर्देशांक होंगे :

(A)  $(x, y)$       (B)  $(x, 0)$

(C)  $(y, 0)$       (D)  $(0, y)$

Co-ordinates of any point on  $y$ -axis are :

(A)  $(x, y)$       (B)  $(x, 0)$

(C)  $(y, 0)$       (D)  $(0, y)$

32. मूल बिन्दु के निर्देशांक होते हैं :

(A)  $(x, 0)$       (B)  $(0, 0)$       (C)  $(x, y)$       (D)  $(0, y)$

The co-ordinates of origin are :

(A)  $(x, 0)$       (B)  $(0, 0)$       (C)  $(x, y)$       (D)  $(0, y)$

- 33.** यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या है :

-1



If the perimeter and area of a circle are numerically equal, then radius of the circle is :

- (A) 2 Unit      (B)  $\pi$  Unit  
(C) 4 Unit      (D) 7 Unit

- 34.** वृत्त के व्यास व त्रिज्या में आपसी संबंध है :

1



The relation between diameter and radius of a circle is :

- (A) Diameter =  $\frac{\text{Radius}}{2}$       (B) Diameter = Radius  
(C) Diameter =  $2 \times \text{Radius}$       (D) Radius =  $2 \times \text{Diameter}$

35. घनाभ जिसकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई कमशः 10 सेमी, 6 सेमी तथा 4 सेमी है, का आयतन होगा : 1

The volume of cuboid whose length, breadth and height are 10 cm, 6 cm and 4 cm respectively is :

- (A)  $240 \text{ cm}^3$       (B)  $250 \text{ cm}^3$   
(C)  $400 \text{ cm}^3$       (D)  $280 \text{ cm}^3$

- 36.**  $R$  सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है :

1

- (A)  $\pi R^2$       (B)  $2 \pi R^2$   
 (C)  $3 \pi R^2$       (D)  $4 \pi R^2$

Surface area of a sphere of radius  $R$  is :

- (A)  $\pi R^2$       (B)  $2 \pi R^2$   
 (C)  $3 \pi R^2$       (D)  $4 \pi R^2$

- 37.** पहली 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है :

(A) 5      (B) 4      (C) 3

Mean of the first 5 Natural numbers is :

- 38.** निम्नलिखित आँकड़ों 2, 3, 5, 3, 6, 4, 3, 5 का बहुलक होगा :

Mode of the following data 2, 3, 5, 3, 6, 4, 3, 5 will be :

39. एक थैले में 4 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी :

(A)  $\frac{2}{5}$       (B)  $\frac{4}{5}$       (C)  $\frac{6}{10}$       (D)  $\frac{3}{5}$

A bag contains 4 red and 6 black balls. A ball is drawn at random from the bag. The probability that the ball drawn is red :

- 40.** इनमें से कौन-सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती ?

(A)  $\frac{2}{3}$       (B) 25%      (C)  $\frac{3}{2}$

Which of the following **cannot** be probability of an event ?

- (A)  $\frac{2}{3}$       (B) 25%      (C)  $\frac{3}{2}$       (D) 0.7